



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन 1932 (श0)  
(सं0 पटना 51) पटना, वृहस्पतिवार, 24 फरवरी 2011

वित्त विभाग

अधिसूचना

22 फरवरी 2011

सं० को०प्र०/स्था०-3/2011-1528 वि०(2)—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार लेखा सेवा नियमावली 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1. उक्त नियमावली, 2000 के नियम-11 के प्रथम वाक्य को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करते हैं :-

“आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और सेवा में नियोजन के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करेगा । बिहार लेखा सेवा के अधीन मूल पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध संस्था से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा तथा मुख्य परीक्षा में ऐच्छिक विषय के रूप में उक्त विषयों में से एक विषय लेना अनिवार्य होगा ।”

2. उक्त नियमावली, 2000 के नियम-14 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करते हैं :-

“आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में प्रावधान के अनुरूप ही अभ्यर्थियों को मौखिक जाँच में भाग लेने के लिए आयोग आमंत्रित करेगा तथा तदनुसार मौखिक जाँच हेतु अंक नियत किये जायेंगे ।”

3. उक्त नियमावली, 2000 के नियम-15 के प्रथम वाक्य निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करते हैं :-

“आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में प्रावधान के अनुरूप ही लिखित तथा मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग एक मेधा सूची तैयार करेगा ।”

4. उक्त नियमावली, 2000 की “अनुसूची-III एतद् द्वारा विलोपित की जाती है ।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रामेश्वर सिंह,  
प्रधान सचिव ।

*The 22nd February 2011*

No. ko-Pra/stha-3/2011-1528F(2)—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, Governor of Bihar is pleased to make following amendments in the Bihar Accounts Service Rules, 2000 :-

**1. First sentence of Rule 11 of the said Rules, 2000 is substituted by the following:-**

"The commission shall advertise the vacancies to be filled by direct recruitment through combined competitive examination and shall invite applications from candidates eligible for appointment to service. It will be essential for candidates for appointment on basic post under Bihar Accounts service to have Bachelor's degree in Commerce, Economics, Mathematics or Statistics from a recognized university or an institution affiliated to it and in main examination it will be compulsory for candidates to take one of said subjects as optional subject."

**2. Rule 14 of the said Rules, 2000 is substituted by the following:-**

"The commission shall invite candidates for viva-voce test as is the provision in context of combined competitive examination conducted by the commission and marks of vive voce test shall also be fixed accordingly."

**3. First sentence of Rule 15 of the said Rules, 2000 is substituted by the following:-**

"The commission shall prepare a merit list on the basis of marks obtained in written examination and viva voce test as is provision in context combined competitive examination conducted by the commission."

**4."Schedule III of the said Rules, 2000 is hereby deleted."**

By order of the Governor of Bihar,  
RAMESHWAR SINGH,  
*Principal Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 51-571+1000-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>